



National Service Scheme (NSS)

International Yog Diwas Date: 21.06.2021



पा पा क कालज बुडू म यागा दिवस मनाया गया



(बुडू म न्यूज) अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पांच परगना किसान कॉलेज बुडू में राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत समाजिक दूरी का पालन करते हुए योग दिवस मनाया गया जिसमें प्राचार्य, सभी शिक्षक, कर्मचारी एवं छात्र उपस्थित रहे। प्राचार्य डॉ अरुण कुमार ने कहा कि योग शरीर और मन को स्वस्थ रखता है। योग हर रोज करने आवश्यक है ताकि हम निरोग रहे। राष्ट्रीय सेवा योजना प्रोग्राम ऑफिसर प्रो भूतनाथ प्रमाणिक ने कहा कि योग हमारे शरीर, मन, भावना को स्थिर और नियंत्रित करता है। इसे योग जीवन में शामिल करने की जरूरत है। मौके पर डॉ सचिन कुमार, डॉ सुरेंद्र ठाकुर, डॉ चक्रधर महातो, प्रो. स्वामलाल, छात्र राजीव कुमार, नीरज, सुभाष, निशिकांत समेत कॉलेज के शिक्षक, कर्मचारी, छात्र मौजूद थे।

पी पी के कॉलेज में मनाया गया योगा दिवस



बुडू म न्यूज अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पांच परगना किसान कॉलेज बुडू में राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत समाजिक दूरी का पालन करते हुए योग दिवस मनाया गया जिसमें प्राचार्य, सभी शिक्षक, कर्मचारी एवं छात्र उपस्थित रहे। प्राचार्य डॉ अरुण कुमार ने कहा कि योग शरीर और मन को स्वस्थ रखता है। योग हर रोज करने आवश्यक है ताकि हम निरोग रहे। राष्ट्रीय सेवा योजना प्रोग्राम ऑफिसर प्रो भूतनाथ प्रमाणिक ने कहा कि योग हमारे शरीर, मन, भावना को स्थिर और नियंत्रित करता है। इसे योग जीवन में शामिल करने की जरूरत है। मौके पर डॉ सचिन कुमार, डॉ सुरेंद्र ठाकुर, डॉ चक्रधर महातो, प्रो. स्वामलाल, छात्र राजीव कुमार, नीरज, सुभाष, निशिकांत समेत कॉलेज के शिक्षक, कर्मचारी, छात्र मौजूद थे।

पांच परगना किसान कॉलेज में मनाया योग दिवस
बुडू। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पांच परगना किसान कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत समाजिक दूरी का पालन करते हुए योग दिवस मनाया गया। जिसमें प्राचार्य, सभी शिक्षक, कर्मचारी एवं छात्र उपस्थित रहे। इस बीच कॉलेज के प्राचार्य डॉ अरुण कुमार ने कहा कि योग शरीर और मन को स्वस्थ रखता है। राष्ट्रीय सेवा योजना प्रोग्राम ऑफिसर प्रो. भूतनाथ प्रमाणिक ने कहा कि योग हमारे शरीर, मन, भावना को स्थिर और नियंत्रित करता है। मौके पर डॉ सचिन कुमार, डॉ सुरेंद्र ठाकुर, डॉ चक्रधर महातो, प्रो. स्वामलाल, छात्र राजीव कुमार, नीरज, सुभाष, निशिकांत समेत कॉलेज के शिक्षक, कर्मचारी सहित कई छात्र मौजूद थे।

पांच परगना किसान कॉलेज में मनाया योग दिवस
बुडू। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पांच परगना किसान कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत समाजिक दूरी का पालन करते हुए योग दिवस मनाया गया। जिसमें प्राचार्य, सभी शिक्षक, कर्मचारी एवं छात्र उपस्थित रहे। इस बीच कॉलेज के प्राचार्य डॉ अरुण कुमार ने कहा कि योग शरीर और मन को स्वस्थ रखता है। राष्ट्रीय सेवा योजना प्रोग्राम ऑफिसर प्रो. भूतनाथ प्रमाणिक ने कहा कि योग हमारे शरीर, मन, भावना को स्थिर और नियंत्रित करता है। मौके पर डॉ सचिन कुमार, डॉ सुरेंद्र ठाकुर, डॉ चक्रधर महातो, प्रो. स्वामलाल, छात्र राजीव कुमार, नीरज, सुभाष, निशिकांत समेत कॉलेज के शिक्षक, कर्मचारी सहित कई छात्र मौजूद थे।

पी पी के कॉलेज बुडू में योग दिवस मनाया गया
बुडू। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पांच परगना किसान कॉलेज बुडू में राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत समाजिक दूरी का पालन करते हुए योग दिवस मनाया गया जिसमें प्राचार्य, सभी शिक्षक, कर्मचारी, एवं छात्र उपस्थित रहे। प्राचार्य डॉ अरुण कुमार ने कहा कि योग शरीर और मन को स्वस्थ रखता है। योग हर रोज करने आवश्यक है ताकि हम निरोग रहे। राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम ऑफिसर प्रो भूतनाथ प्रमाणिक ने कहा कि योग हमारे शरीर, मन, भावना को स्थिर और नियंत्रित करता है। इसे योग जीवन में शामिल करने की जरूरत है। मौके पर डॉ सचिन कुमार, डॉ सुरेंद्र ठाकुर, डॉ चक्रधर महातो, प्रो. स्वामलाल, छात्र राजीव कुमार, नीरज, सुभाष, निशिकांत समेत कॉलेज के शिक्षक, कर्मचारी, छात्र मौजूद थे।

आज दिनांक 21.06.2021 को पी. पी. के. कॉलेज, बुण्डू में राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वावधान में योग दिवस मनाया गया। जिसमें छात्र-छात्राएँ शिक्षकेत्तर कर्मचारी एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के पदाधिकारी उपस्थित हुए।